



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2535]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2535]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3052(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1188(अ), तारीख 24 मई, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 107/100 कि.मी. से 140/200 कि.मी. (गाज़ियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 10 जून, 2012 को “हिन्दुस्तान” और “टाइम्स ऑफ़ इंडिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के 107.100 कि.मी० से 140.200 कि.मी. तक (गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
							(वर्ग मीटर में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	अलीगढ़	कोल	(1)पड़हावली	93	निजी	खेती	2511	0.2511	रमेशचन्द्र उर्फ कलियान सिंह पुत्र बालकिसन, रेनूसिंह पुत्री सूरजपालसिंह, प्रबलप्रतापसिंह पुत्र स्व० विक्रम सिंह, पूरन सिंह पुत्र हरीसिंह, इन्द्रवती पत्नी हरीसिंह, बनवारी लाल, बाबूलाल अव.10 वर्ष सं० शीला पुत्र गोपी सिंह, शीला पत्नी गोपी सिंह, अमर सिंह, राम सिंह, विनोद कुमार उर्फ विन्नामी पुत्रगण पदम सिंह, जावित्री देवी पत्नी पदम सिंह,
				94	निजी	खेती	3880	0.3880	तेजपाल, नेत्रपाल, शंकरपाल, महेन्द्रपाल पुत्रगण सोनपाल
				65	निजी	खेती	95	0.0095	कमलेश हरि द्विवेदी पुत्र मुकन्दहरी शास्त्री, हरदेवी पुत्र कमलेशहर द्वेदी, मधुरेश हरदेवी पत्नी कमलेश हरदेवी
				66	निजी	खेती	5082	0.5082	गार्गी अग्रवाल पुत्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल, पवन कुमार जैन पुत्र कैलाश चन्द्र जैन, बसन्त कुमार बाथम अशर्फीलाल बाथम, क्षमा अग्रवाल पत्नी टी.सी. अग्रवाल, सूरजकुमार अग्रवाल एस.यू.एफ. पुत्र राचन्द्र अग्रवाल.
				67	निजी	खेती	909	0.0909	कलमेशहरि द्विवेदी पुत्र मुकन्दहरी शास्त्री, हरदेवी, मधुरेश हरदेवी पुत्रगण कमलेश हरदेवी, पवन कुमार जैन पुत्र कैलाश चन्द्र जैन, बसन्त कुमार बाथम अशर्फीलाल बाथम, क्षमा अग्रवाल पत्नी टी.सी. अग्रवाल, सूरजकुमार अग्रवाल पुत्र राचन्द्र अग्रवाल, नीरज अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल,
				68	निजी	खेती	3	0.0003	ओमवती देवी पत्नी राधेश्याम पुत्री घूरलाल, नीलम पत्नी विजयकुमार,
				88	निजी	खेती	5645	0.5645	औंकार सिंह पुत्र सालिगराम, मीना रानी पत्नी रामअवतार, शेखर गुप्ता पुत्र सत्यदेव गुप्ता, तरुण प्रकाश पुत्र भगवान दास, आशरानी पत्नी सूरजमान,
				87	निजी	खेती	9	0.0009	हरपाल सिंह पुत्र देवी सिंह, कुशलपाल सिंह पुत्र बाबू सिंह, दिनेश जौहरी पुत्र रज्जन लाल जौहरी, उपेन्द्र कुमार वार्णाल पुत्र शिव शंकर, नाहर सिंह शम्भू दयाल,3
				70	निजी	खेती	7035	0.7035	नन्दन सिंह, दामोदर सिंह पुत्रगण कल्लू, सोरन सिंह, विजयपाल सिंह, रामबाबू पुत्रगण लाल सिंह, मुरारी पुत्र हुक्मी, जयपाल सिंह, रामपाल सिंह पुत्रगण बहादुर, वदन सिंह, तेजवीर सिंह पुत्रगण रामप्रसाद, भूदेवी पत्नी रामप्रसाद, धन सिंह, महीपाल सिंह, सत्य प्रकाश, इन्द्रपाल पुत्रगण पूरन सिंह, इमरती देवी पत्नी पूरन सिंह, कलयान सिंह, पप्पू पुत्रगण सूरज पाल, अनोखी देवी पत्नी सूरजपाल, संगीता वार्णाय पत्नी महेन्द्र कुमार वार्णाय, कुसुमलता पत्नी आनन्द कुमार, अनुपम पुत्र कैलाशचन्द, आशोक कुमार गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता, ओमप्रकाश पुत्र किशोरीलाल, चन्द्रकान्ता पत्नी सुरेशचन्द्र, मुकेश चन्द्र उर्फ मुकेश कुमार पुत्र सुरेशचन्द्र, वार्णाय, संजीव कुमार गुप्ता,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				71	निजी	खेती	1609	0.1609	कुमोद कुमारी शर्मा पत्नी शिव कुमार शर्मा, बबली पत्नी ओमपाल सिंह,
				82	निजी	खेती	1056	0.1056	देवपाल, नेत्रपाल, राधेश्याम पुत्रगण नत्थी सिंह,
				81	निजी	खेती	7018	0.7018	देवपाल, नेत्रपाल, राधेश्याम पुत्रगण नत्थी सिंह, ओमप्रकाश नायक करन सिंह,
				75	निजी	खेती	718	0.0718	मकखन सिंह पुत्र नेतराम, गोवर्धन सिंह पुत्र नेतराम, वीरेन्द्र पाल सिंह, महेन्द्रपाल सिंह पुत्रगण राजपाल सिंह,
				76	निजी	खेती	4956	0.4956	मकखन सिंह पुत्र नेतराम, गोवर्धन सिंह पुत्र नेतराम, वीरेन्द्र पाल सिंह, महेन्द्रपाल सिंह पुत्रगण राजपाल सिंह,
				77	निजी	बाग	17	0.0017	गोवर्धन सिंह पुत्र नेतराम, मकखन सिंह पुत्र नेतराम, वीरेन्द्रपाल सिंह, महेन्द्रपाल सिंह पुत्रगण राजपाल सिंह, लीलावती पत्नी राजपाल सिंह,
				222	निजी	खेती	7478	0.7478	गोवर्धन पुत्र पूरन
				217	निजी	खेती	1020	0.1020	मुरारीलाल पुत्र हुक्म सिंह, जयपाल सिंह, रामपाल सिंह पुत्रगण बहादुर सिंह, कल्याण सिंह, पप्पू पुत्रगण सुरजपाल, रामजीलाल पुत्र अंगन सेठ,
				218	निजी	खेती	2847	0.2847	नन्दन सिंह पुत्र कल्लू, सत्यपाल सिंह पुत्र फतेह सिंह,
				219	निजी	खेती	2176	0.2176	शंकर लाल पुत्र खचेरा
				220	निजी	खेती	896	0.0896	खचेर सिंह पुत्र भूप सिंह
				233	निजी	खेती	3935	0.3935	बिनोद कुमार पुत्र रेवती लाल, लाल सिंह पुत्र सुखराम, चौब सिंह, महेश चन्द्र, उदयवीर पुत्रगण दुर्गादास
				230	निजी	खेती	6204	0.6204	प्रेमवती पत्नी शोभराम, कु० पूनम कुमारी पत्नी पौहप सिंह, लाखन सिंह, ओमवीर सिंह पुत्रगण बहादुर सिंह, नरायनी देवी पत्नी झुन्नी लाल
				240	निजी	खेती	248	0.0248	जिला उद्यान अधिकारी अलीगढ़
				245	निजी	खेती	9891	0.9891	जिला उद्यान अधिकारी अलीगढ़, सरोज देवी पत्नी रामजीलाल, मिश्री लाल, सोमवीर सिंह, लाला बाबू ना. सं० पिता स्वयं, लाखन सिंह, ओमवीर सिंह पुत्रगण बहादुर सिंह, रामजी लाल पुत्र आशाराम
				246	निजी	खेती	3282	0.3282	चौधरी, मिश्रीलाल अव. सं० मथुरा देवी माता पुत्रगण मुंशीलाल, मथुरा देवी पत्नी मुन्शीलाल
				247	निजी	खेती	3251	0.3251	पन्नालाल पुत्र राम स्वरूप, गुडडी देवी पत्नी पन्ना लाल, मुन्नी देवी पत्नी भूदेव सिंह, कल्पना कुमारी, बीना देवी पुत्री भूदेव सिंह।
			(2)लेखराजपुर	211	निजी	खेती	12787	1.2787	प्रेमसागर सिंह, मुकेश प्रताप सिंह पुत्रगण रामचन्द्र सिंह, सन्तोष कुमार सिंह, चन्द्रपाल सिंह पुत्रगण रनवीर सिंह, रामजीलाल पुत्र सोनपाल, दुर्गपाल, जगनलाल, केहरी पुत्रगण बाबूलाल, रनवीर सिंह पुत्र चिरंजी,
			(3) महारावल	606	निजी	खेती	153	0.0153	उमेश चन्द्र शर्मा पुत्र मोहन लाल, लक्ष्मी गौड़ पत्नी उमेश चन्द्र शर्मा, प्रवीन कुमार पुत्र मिश्री लाल, मीना तोमर पत्नी अजीत सिंह तोमर, इलियासपुर माइनर
				605	निजी	खेती	825	0.0825	अरविन्द कुमार वाष्णीलय, अमित वाष्णीय पुत्रगण रामजीलाल वाष्णीय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(4) अलीनगर	41	निजी	खेती	400	0.0400	हरीलाल पुत्र गोविन्दा, धर्मपाल, शिवकुमार पुत्रगण प्रेमपाल, विद्या देवी पत्नी प्रेमपाल
		2. गभाना	(1) सोमना	80	निजी	खेती	2641	0.2641	कृष्ण पुत्र महीपाल, वीरपाल पुत्र करन सिंह, प्रवीन कुमार पुत्र सोनपाल, विमलेश कुमारी पुत्री सोनपाल सिंह, सुरेश चन्द्र पुत्र चन्द्रभान, श्रीमती गीता चन्द्रा पत्नी सुरेश चन्द्रा, श्रीमती कमला देवी पत्नी जय देवी वशिष्ठ, सरोज देवी पत्नी अमर पाल सिंह
			(2) चूहरपुर	58	निजी	खेती	1275	0.1275	चेतन्यराज सिंह व दुष्यन्त सिंह पुत्रगण रघुराज सिंह
				59	निजी	खेती	4020	0.4020	नाहर सिंह पुत्र राजेन्द्रपाल सिंह, ओमवीर सिंह पुत्र ठाकुरदास, मनवीर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण राजेन्द्रपाल सिंह, श्रीमती शान्ती देवी बेवा राजेन्द्रपाल सिंह, नरेन्द्रपाल सिंह, देवराज सिंह पुत्रगण ठाकुरदास
				77	निजी	खेती	1746	0.1746	देवी सिंह पुत्र घनश्याम सिंह, मिथलेश देवी पत्नी खरग सिंह,
							400	0.0400	
							400	0.0400	

[फा. सं. भाराराप्रा/पो.आई.यू.-अली./2012/44011]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3052(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O.1188(E) dated 24th May, 2012**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No 91, on the stretch of the land from **Km 107-100 to Km 140-200 (Ghaziabad - Aligarh Section)** in the District of Aligarh in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Hindustan" and "Times of India" both dated 10 June 2012; under sub section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 107.100 to Km.140.200 (Ghaziabad-Aligarh Section) at National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh.

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in		Name of the land owner /Interested persons
							Square meters	Hactares	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Aligarh	Kol	(1)Padhawali	93	Private	Agriculture	2511	0.2511	Ramesh chandra urf Kalyan Singh S/o Bal Kishan, Renu Singh D/o Suraj Pal Singh. Prabal Pratap Singh s/o Lt. Vikram Sing, Puran Singh S/o Hair Singh, Indrawati w/o Hari Singh, Banwari Lal, Babulal monour 10yr c/o Sheela S/o Gopi singh, Sheela W/o Gopi singh, Amar Singh, Ram, Vinod Kumar urf Vinnami sons of Padam Singh Jawatri Devi W/o Padam Singh,
				94	Private	Agriculture	3880	0.3880	Tejpal, Naitrapal, Shankar Pal, Mahendra Pal Sons of Sonpal
				65	Private	Agriculture	95	0.0095	Kamlesh, Hari Devedi S/o Mukandhari Shaktri, Hardevadi S/o Kamlesh Devadi, Madhuresh Hardavadi W/o Kamlesh Har Davadi,
				66	Private	Agriculture	5082	0.5082	Gargi Agrawal D/o Mahendra Kumar Agrawal, Pawan Kumar Jain S/o Kailash Chandr Jain, Basand Kumar Batham Asharfi Lal, Kshama Agrawal W/o T.C Agrawal, Suraj Kumar Agrawal SUF S/o Ram Chandra Agrawal
				67	Private	Agriculture	909	0.0909	Kamlesh, Hari Devedi S/o Mukandhari Shaktri, Hardevadi S/o Kamlesh Devadi, Madhuresh Hardavadi W/o Kamlesh Har Davadi, Pawan Kumar Jain S/o Kailash Chandra Jain, Basant Kumar Batham Asharfi Lal Batham, Kshama Agrawal W/o TC Agrawal, Suraj Kumar Agrawal S/o Ram Chandra Agrawal, Neeraj Agrawal S/o Mahendra Kumar Agrawal
				68	Private	Agriculture	3	0.0003	Omwati Devi W/o Radhe Shyam D/o Ghurelal, Neelam W/o Vijay Kumar,
				88	Private	Agriculture	5645	0.5645	Omkar Singh S/o Salig, Ram, Meena Rani W/o Ramawatar, Shekhar Gupta S/o Satydev Gupta, Tarun Prakash S/o Bhagawan Das, Asha Rani W/o Suraj Bhan,
				87	Private	Agriculture	9	0.0009	Harpal Singh S/o Devi Singh, Kushal Pal Singh S/o Babu Sing, Dinesh Johari S/o Rajjan Lal Johari, Upaendra Kumar Varshaney S/o Shiv Shankar, Nahar Singh Shambhu Dayal,

4840 92/12-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				70	Private	Agriculture	7035	0.7035	Nandan Sing, Danodar Singh Sons of Kallu, Soran Sing, Vijaypal Singh, Rambabu Sons of Lal Singh, Murari S/o Hukami, Jai Pal Singh, Ram Pal Singh Sons of Bahadur, Vadan Singh, Tejveer Singh Sons of Ram Prasad, Bhudevi W/o Ram Prasad, Dham Singh, Mahipal Sing, saty Prakash, Indrapal S/ons of Puran Sing, Imarti Devi W/o Puran Sing, Kalyan Singh, Pappu Sons of Suraj Pal, Anokhi Devi W/o Suraj Pal, Sangeeta Varshaney W/o Mahendra Kumar Vashaney, Kusumlata W/o annand Kumar, anupam S/o Kailash Chandra,, Ashok Kumar Gupta S/o Omprakash Gupta, Omprakash S/o Kishori Lal, Chandrakanta W/o Suresh Chandra, Mukesh Chandra urf Mukesh Kumar S/o Suresh Chandra Vashaney, Sanjeev Kumar Gupta,
				71	Private	Agriculture	1609	0.1609	Kumod Kumar Sharma W/o Shiv Kumar Sharma, Babli W/o Ompal Sing,
				82	Private	Agriculture	1056	0.1056	Devpal, Naitrapal, Radheshyam Sons of Nathi Singh,
				81	Private	Agriculture	7018	0.7018	Devpal, Naitrapal, Radheshyam Sons of Nathi Singh, Omprakash Nayak karan Singh
				75	Private	Agriculture	718	0.0718	Makhan Singh S/o Naitram, Govardhan Singh S/o Naitram, Veerendra Pal Singh, Mahendra Pal Singh S/o RajPal Singh,
				76	Private	Agriculture	4956	0.4956	Makhan Singh S/o Naitram, Govardhan Singh S/o Naitram, Veerendra Pal Singh, Mahendra Pal Singh S/o RajPal Singh,
				77	Private	Bagh	17	0.0017	Govardhan Singh S/o Naitram, Makhan Singh S/o Naitram, Veerndrapal Singh, Mahendra Pal Singh Sons of Rajpal Singh, Leelawati W/o RajPal Singh,
				222	Private	Agriculture	7478	0.7478	Govardhan S/o Puran
				217	Private	Agriculture	1020	0.1020	Murari Lal S/o Hukam Sing, Jay Pal Singh, Ram Singh Sons of Bahadur Singh, Kalyan Singh, Pappu sons of Suraj, Ramji Lal S/o Angan Saith.
				218	Private	Agriculture	2847	0.2847	Nandhan Singh s/o Kallu, Saypal Singh S/o Faheh Singh,
				219	Private	Agriculture	2176	0.2176	Shankar Lal S/o Khechara
				220	Private	Agriculture	896	0.0896	Khacher Singh S/o Bhup Singh
				233	Private	Agriculture	3935	0.3935	Binod Kumar S/o Rewati Lal, lal Singh S/o Sukhram, Chobe Singh, Mahesh Chandra, Udayveer ons of Durgadas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				230	Private	Agriculture	6204	0.6204	Prewati W/o Shobram, Kumari Puanam Kuamr W/o Phohap Singh, Lakhan Singh, Omveer Singh Sons of Bahadur Singh, Narayani Devi W/o Jhunni Lal.
				240	Private	Agriculture	248	0.0248	Jila Uddhan Adhikari Aligarh
				245	Private	Agriculture	9891	0.9891	Jila Uddhan Adhikari Aligarh, Saroj Devi W/o Ram Ji Lal, Mishri Lal, Somveer Singh. Lala babu minour c/o Father Self, Lakhan Singh, Omveer Singh Sons of Bahadur Singh, Ram Ji Lal S/o Asha Ram
				246	Private	Agriculture	3282	0.3282	Chaudhar, Mishri Lala minour C/o Mathura Devi Mother sons of Munshi Lal, Mathura Devi W/o Munshi Lal
				247	Private	Agriculture	3251	0.3251	Panna Lal S/o Ram Swrup, Guddi Devi W/o Panna Lal, Munni Devi W/o Bhudev Singh, Kalpana Kumari, Beena Devi D/o Bhudev Singh
			(2)Lekhrajpur	211	Private	Agriculture	12787	1.2787	Premasagar Singh, Mukesh Pratap Singh Sons of Ram Chandar Singh, Santosh Kumar Singh, Chandrapal Singh Sons of Ranveer Singh, Ramji Lal S/o Sonpal, Durgpal, Jaganlal, Kehari Sons of BabuLal, Ranveer Singh S/o Chiranji,
			(3) Mahrawal	606	Private	Agriculture	153	0.0153	Umesh Chandra Sharma S/o Mohan Lal, Laxmi Gaur W/o Umesh Chandra Sharma, Praveen Kumar S/o Mishri Lal, Meena Tomar W/o Ajit Singh Tomar, Ilyashpur minor
				605	Private	Agriculture	825	0.0825	Arvind Kumar Varshaney,Amit Varshaney sons of Ramji Lal Varshaney
			(4) Ali Nagar	41	Private	Agriculture	400	0.0400	Hari Lal S/o Govinda, Dharpal, Shivkumar sons of Prempal, Vidya Devi W/o Prempal
	2. Gabhana	(1) Somna		80	Private	Agriculture	2641	0.2641	Krishan S/ Mahipal, Veerpal S/o Karan Singh, Praveen Kumar S/o sonpal, Vimlesh Kumari D/o Sonjpal Singh, Suresh Chandra S/o Chandra Bhan, Smt. Geeta Chandra W/o Suresh Chandra, Smt. Kamala Devi W/o Jay Dev vashisth, Saroj Devi W/o Amar Pal Singh
			(2) Chuaharpur	58	Private	Agriculture	1275	0.1275	Chetanya Singh, Dushyant Singh sons of Raghuraj Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				59	Private	Agriculture	4020	0.4020
								Nahar Singh S/o Rajendra Pal Singh, Omveer Singh S/o Thakur Das, Manveer Singh, Dharmveer Singh sons of Rajendra Pal Singh, Smt. Shanti Devi Widow Rajendran Pal Singh, Narendra Pal Singh, Devraj Singh sons of Thakur Das
				77	Private	Agriculture	1746	0.1746
								Devi Singh s/o Ghanshyam singh, Mithlesh Devi W/o Kharag Singh,

[F. No. NHAI/PIU-ALG/2012/44011]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.